



केलकता बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रोबिन उथप्पा और शाकिब-उल-हसन की अर्धशतकीय पारियों और स्पिनर सुनील नारायण की बलखाती गेंदों के जादू से केलकता नाइटराइडर्स ने गुरुवार को रायल चैलेंजर्स बंगलूर की उम्मीदों पर पानी फेरकर 30 रन की जीत के साथ शान से आइपीएल प्लेऑफ में जगह बना ली। उथप्पा ने 51 गेंद पर दस चौकों और छह छक्के की मदद से नाबाद 83 रन बनाए। जबकि शाकिब ने 38 गेंद पर 60 रन की जोरदार पारी खेली जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल हैं। बंगलूर की बलि लक्ष्य के सामने शुरुआत अच्छी नहीं रही।

योगेश टकवले और कप्तान वरिष्ठ केहली ने दूसरे विकेट के लिए 63 गेंद पर 85 रन की साझेदारी की लेकिन नारायण की जादुई गेंदबाजी के सामने उसका मध्यक्रम लुप्त हो गया। आखिर में बंगलूर की टीम पांच विकेट पर 165 रन ही बना पाई। नारायण ने चार ओवर में 20 रन देकर चार विकेट लिए। इस जीत से केकेआर के 13 मैच में 16 अंक हो गए हैं और किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपरकिंग्स के बाद प्लेऑफ में जगह बनाने वाली वह तीसरी टीम बन गई है। बंगलूर ने 13 मैच खेले हैं और उसकी आठवीं हार है जिससे उसकी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद भी समाप्त हो गई।

टास गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे केकेआर ने कप्तान गौतम गंभीर और उनका स्थान लेने के लिए उतरे मनीष पांडे के विकेट जल्दी गंवा दिए। यूसुफ पठान भी मुथैया मुरलीधरन और युवराज सहि पर छक्के जड़े ने के बाद रन आउट हो गए। लेकिन उथप्पा और शाकिब की शतकीय साझेदारी ने सारी स्थिति बदल दी।

{loadposition user13}

स्कोर बोर्ड

केलकता नाइटराइडर्स: रोबिन उथप्पा नाटआउट 83, गौतम गंभीर का टकवले बो स्टार्क 4, मनीष पांडे का स्टार्क बो डंडा 13, यूसुफ पठान रन आउट 22, शाकिब-उल-हसन बो अबू नाचमि 60, रयान टेन डोयशे नाटआउट 6, अतरिक्ति 7, कुल (चार विकेट पर) 195 रन।

विकेट पतन : 1-5, 2-23, 3-56, 4-177

गेंदबाजी: स्टार्क 4-0-32-1, डंडा 4-0-38-1, अबू नाचमि 4-0-33-1, मुरलीधरन 2-0-19-0, युवराज 2-0-21-0, यजुवेंद्र चहल 4-0-50-0

रायल चैलेंजर्स बंगलूर: क्विसि गेल 1 लबीडब्लू बो उमेश यादव 6, योगेश टक्कवले बो नारायण 45, वरिाट केहली क मोरक्ल बो नारायण 38, युवराज सहि क वनियकुमार बो नारायण 22, 1 बी डविलियिर्स बो नारायण 13, सचनि राणा नाटआउट 19, मशिल स्टार्कनाटआउट 12, अतरिक्त्त 10, कुत्त (पांच वक्त्त पर) 165 रन

वक्त्त पतन : 1-7, 2-92, 3-93, 4-129, 5-133

गेंदबाजी: मोरने मोरक्ल 4-0-21-0, उमेश यादव 4-0-45-1, सुनील नारायण 4-0-20-4, वनियकुमार 4-0-44-0, शाक्बि-उल-हसन 4-0-27-0

(भाषा)